



::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क::
O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE



द्वितीय तल, जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan

रेस कोर्स रिंग रोड / Race Course Ring Road

राजकोट / Rajkot - 360 001

Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142 Email: cexappealsrajkot@gmail.com

रजिस्टर्ड डाक ए.डी.द्वारा :-

क	अपील / फाइल संख्या/ Appeal / File No.	मूल आदेश सं / O.I.O. No.	दिनांक/ Date
	V2/42 & 43/GDM/2019	20/DC/MUNDRA/2018-19 21/DC/MUNDRA/2018-19	31-01-2019 08-02-2019

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.):

KCH-EXCUS-000-APP-004-TO-005-2020

आदेश का दिनांक / Date of Order:	जारी करने की तारीख / Date of issue:
08.01.2020	08.01.2020

श्रीगोपी नाथ, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /

Passed by Shri. Gopi Nath, Commissioner (Appeals), Rajkot

ग अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/ वस्तु एवं सेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: /
Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST,
Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

घ अपीलकर्ता & प्रतिवादी का नाम एवं पता / Name & Address of the Appellant & Respondent :-

Shiv Logistics Office No.66, Shakti Shopping Centre, Shakti Nagar, Mundra, Kutch

इस आदेश (अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/
Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

(A) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है। /

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

(i) वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए। /

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

(ii) उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलों सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, द्वितीय तल, बहुमाली भवन असारवा 380016 को की जानी चाहिए। /


To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016 in case of appeals other than as mentioned in para- 1(a) above

(iii) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की माँग, ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपये 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपये या 50 लाख रुपये तक अथवा 50 लाख रुपये से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपये का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/-, Rs.5000/-, Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-

(B) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की माँग, ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपये 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपये या 50 लाख रुपये तक अथवा 50 लाख रुपये से अधिक है तो क्रमशः 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रजिस्टार के नाम से किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपये का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। /

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. / Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/-.



- (i) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमावली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी। /

The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

- (ii) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जर्माना विवादित है, या जर्माना, जब केवल जर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रूप से अधिक न हो।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है

- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम
(ii) सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि
(iii) सेनवेट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्जी एवं अपील को लागू नहीं होगा। /

For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include :

- (i) amount determined under Section 11 D;
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

- (C) **भारत सरकार को पुनरीक्षण आवेदन :**
Revision application to Government of India:

इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपरतुक के अंतर्गत अवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। /

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

- (i) यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के नुकसान के मामले में। /

In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

- (ii) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छूट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। /

In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

- (iii) यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। /

In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

- (iv) सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो इयूटी क्रेडिट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (नं. 2), 1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समयाविधि पर या बाद में पारित किए गए हैं। /

Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

- (v) उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील)नियमावली, 2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। /

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

- (vi) पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए।

जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रुपये से ज्यादा हो तो रुपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

- (D) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each.


- (E) यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। /

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.

- (F) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबंधित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

- (G) उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। /

For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in.



:: ORDER-IN-APPEAL ::

M/s Shiv Logistics, Mundra (*hereinafter referred to as "Appellant"*) has filed Appeal Nos. V2/42 & 43/GDM/2019 against Orders-in-Original as detailed in the Table below (*hereinafter referred to as 'impugned orders'*) passed by the Deputy Commissioner, CGST Division, Mundra (*hereinafter referred to as 'adjudicating authority'*):-

Sl. No.	Appeal No.	Order-in-Original No. & Date	Service Tax involved (Rs.)
1	42/GDM/2019	20/DC/Mundra/2018-19 Dated 31.1.2019	35,06,176/-
2	43/GDM/2019	21/DC/Mundra/2018-19 dated 8.2.2019	37,71,890/-


1.1 Since issue involved in above appeals is common, I take up both the appeals together for decision vide this common order.

2. The brief facts of the case are that during audit of the records of the Appellant, it was found that the appellant had not paid service tax in respect of 'Cargo Handling Service' provided by them during the period from April, 2013 to September, 2016 for handling agriculture produce viz. dry peas, green peas, yellow peas, chick peas and lentils; that the Appellant had wrongly availed exemption under negative list by classifying the said goods as agriculture produce.

2.1 Show Cause Notices for the period from April-13 to March-2015 and for the subsequent period from April-2015 to September-2016 were issued to the Appellant calling them to show cause as to why service tax of Rs.37,71,890/- & Rs. 35,06,176/- respectively, should not be demanded under Section 73 of the Finance Act, 1994 (*hereinafter referred to as 'Act'*) along with interest under Section 75 and proposing penalty under Sections 76 and 78 of the Act.

2.2 The above Show Cause Notices were adjudicated by the adjudicating authority vide the impugned orders who held that,

(i) dry peas, green peas, yellow peas, chick peas and lentils etc were subjected to process of cleaning, de-hulling/decortications, drying, polishing etc and hence, the same were not covered under the definition of 'agriculture produce' under Section 65B(5) of the Act and consequently the services were not covered under clause d(v) of Section 66D of the Act and the Appellant was liable



to pay service tax under cargo handling service;

(ii) the Appellant had not followed the procedure prescribed under Notification No. 40/2012-ST dated 20.6.2012 for availing *ab initio* exemption in respect of services rendered to SEZ unit which were wholly consumed within SEZ.

2.3 The adjudicating authority confirmed service tax demand along with interest and imposed penalty of Rs. 3,50,617/- under Section 76 of the Act and penalty of Rs. 37,71,890/- under Section 78 *ibid*.

3. Aggrieved, the appellant preferred the instant appeals, *inter-alia*, on the various grounds as under:

(i) That the amount charged for providing cargo handling services is exempted as the services were provided to the Adani Port & SEZ Ltd meant for export; that as per the definition of cargo handling service prescribed under Section 65(23) of the Act, it does not include handling of export cargo; that the same view has also been taken by the Board in the instruction issued vide letter F.No. B11/1/2002-TRU dated 01.08.2002; that the said instruction also states exemption of cargo handling service provided for handling agriculture produce meant for export purpose.

(ii) That under negative list regime of service tax after 01.07.2012, loading and unloading of agriculture produce is exempted vide clause d(v) of Section 66D of the Act; that Board vide instruction No. B11/1/2002-TRU dated 1.8.2002 has clarified that cargo handling service used in relation to export cargo is excluded from tax net.

(iii) That they also provided services of transportation of goods, hiring of motor vehicles and supply of water to M/s Vijay Tanks and Vessels Pvt Ltd, who is located at Mundra Port & SEZ and the said services were wholly consumed within SEZ area and therefore exempted from paying service tax in terms of Place of Provision of Services Rules, 2012; that the said services were *ab initio* exempted in terms of Notification No. 40/2012-ST dated 20.6.2012, as amended.

4. In hearing, Shri R. Subramanya, Advocate, appeared on behalf of the Appellant and reiterated the submissions of appeal memo for consideration.



5. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned orders, both appeal memorandum and submissions made by the appellant at the time of hearing. The issue to be decided in the present appeals is whether the impugned orders confirming service tax demand under 'Cargo Handling Service' and imposing penalty under Sections 76 and 78 of the Act is correct, legal and proper or not.

6. On going through the records, I find that the Appellant had provided Cargo Handling Service to M/s Adani Port and SEZ Ltd for export of various agriculture produce. The adjudicating authority found that dry peas, green peas, chick peas, lentils etc were subjected to process and hence, cannot be considered as agriculture produce and therefore services provided with reference to said produce were not covered in negative list under Section 66D of the Act and the Appellant was liable to pay service tax under 'Cargo Handling Service'. On the other hand the Appellant argued that definition of cargo handling service prescribed under Section 65(23) of the Act, does not include handling of export cargo; that loading and unloading of agriculture produce is exempted vide clause d(v) of Section 66D of the Act.

7. I find that it is pertinent to examine the definition of term 'Cargo Handling Service' as given under Section 65(23) of the Act as under:

“(23) “cargo handling service” means loading, unloading, packing or unpacking of cargo and includes, —


(a) cargo handling services provided for freight in special containers or for non-containerised freight, services provided by a container freight terminal or any other freight terminal, for all modes of transport, and cargo handling service incidental to freight; and

(b) service of packing together with transportation of cargo or goods, with or without one or more of other services like loading, unloading, unpacking,

but does not include, handling of export cargo or passenger baggage or mere transportation of goods;”

(Emphasis supplied)

7.1 I find that definition of 'Cargo Handling Service' *supra* specifically excludes handling of export cargo. In the present case, it is not under dispute that the Appellant had rendered Cargo Handling Service for export of agriculture produce. Since, the services were rendered for handling of export cargo, the Appellant is not liable to pay service tax on the said services. I, therefore, set aside the confirmation of Service Tax demand and penalty imposed under



Ar

Sections 76 and 78 of the Act in respect of cargo handling services rendered by the Appellant.

8. I find that the adjudicating authority denied the *ab initio* exemption from payment of service tax under Notification No. 40/2012-ST dated 20.6.2012 in respect of services rendered to M/s Vijay Tank and Vessels Pvt Ltd on the ground that the Appellant had not followed procedure prescribed in notification *supra*. I find that stand taken by the adjudicating authority is contrary to facts on records inasmuch as there is no proposal in the Show Cause Notice to deny benefit of exemption under Notification No. 40/2012-ST dated 20.6.2012. Thus, the adjudicating authority has travelled beyond the scope of Show Cause Notice and it is settled position of law that any order passed beyond Show Cause Notice is not sustainable. Even otherwise, non following certain procedure prescribed under notification *supra* should not make the Appellant ineligible for substantial benefit of notification, particularly when it is not disputed that the Appellant had rendered services to M/s Vijay Tank and Vessels Pvt Ltd, which were wholly consumed within SEZ. Under the circumstances, the Appellant is not liable to pay any service tax at all and therefore, the Appellant had correctly claimed *ab initio* exemption from payment of service tax under Notification *supra* in respect of services rendered to M/s Vijay Tank and Vessels Pvt Ltd. It is settled position of law that substantial benefit of notification cannot be denied for minor procedure lapse. My views are supported by the decision rendered by the Hon'ble Allahabad High Court in the case of J.S. Gupta and Sons reported as 2015 (318) E.L.T. 63 (All.), wherein it has been held that,

“39. There are condition and conditions, some may be substantive mandatory based on considerations of policy, and some others may merely belong to the area of procedure. It will be erroneous to attach equal importance to the non-observance of all conditions irrespective of the purposes they were intended to serve. A distinction between the provisions of statute which are of substantive character and were built in with certain specific objectives or policy on the one hand, and those which are merely procedural and technical in their nature on the other, must be kept clearly distinguished. In fact, it is now a trite law that the procedural infraction of notifications/circulars etc. are to be condoned if exports have really taken place and the law is settled now that substantive benefit cannot be denied for procedural lapses. Procedure has been prescribed to facilitate verification of substantive requirements. The core aspect or fundamental requirement for



debate is its manufacture and subsequent export. As long as this requirement is met, other procedural deviations can be condoned.”

(Emphasis supplied)

8.1 By respectfully following the above decision and considering overall facts and circumstance of the case, I am of the opinion that non production of prescribed Form A1 and Form A2 is a minor procedural lapse, which is condonable since consumption of services within SEZ is not under dispute. I, therefore, hold that the Appellant is eligible for ab initio exemption from payment of service tax under Notification No. 40/2012-ST dated 20.6.2012 in respect of services rendered to M/s Vijay Tank and Vessels Pvt Ltd. I, therefore, set aside the confirmation of Service Tax demand on this count and penalty imposed under Sections 76 and 78 of the Act.

9. In view of above, I set aside the impugned orders and allow both the appeals.

10. अपीलकर्ताओ द्वारा दर्ज की गई अपीलो का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

10. The appeals filed by the Appellant stand disposed off in above terms.

(Signature)
(GOPI NATH) 8/11/2020
Commissioner(Appeals)

Attested

(Signature)

(V.T.SHAH)
Superintendent(Appeals)

By RPAD

To, M/s Shiv Logistics, Office no.66, Shakti Shopping Centre, Shakti Nagar, Mundra-370421 District Kutch.	सेवा में, मेसर्स शिव लॉजिस्टिक, ऑफिस नंबर 6, शक्ति शॉपिंग सेंटर, शक्ति नगर, मुंद्रा 370421-.
---	---



प्रतिलिपि :-

- 1) प्रधान मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- 2) आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीधाम आयुक्तालय, गांधीधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3) उप आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुँदरा मण्डल को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) गार्ड फ़ाइल।

